

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 26, 2021	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2021-22
			फर. 26	जन. 28		
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	10949509	10774742	11582442	11627008	6.2	7.9
II. खाद्यान्न ऋण	61254	75206	82390	68224	11.4	-9.3
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	10888255	10699536	11500052	11558783	6.2	8.0
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1343216	1312285	1432743	1448928	7.9	10.4
2. उद्योग	3032782	2945152	3046833	3135271	3.4	6.5
2.1 सूक्ष्म और लघु ¹	412655	404155	464420	484465	17.4	19.9
2.2 मझौले	143193	137116	223376	235050	64.1	71.4
2.3 बड़े	2476933	2403881	2359037	2415757	-2.5	0.5
3. सेवाएं	2818709	2808122	2904619	2966593	5.2	5.6
3.1 परिवहन परिचालक	143305	141683	155422	149178	4.1	5.3
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19773	17698	20344	20134	1.8	13.8
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	59739	57440	54461	64607	8.1	12.5
3.4 शिपिंग	7753	8418	6871	7480	-3.5	-11.1
3.5 नौवहन	26119	26652	23407	23221	-11.1	-12.9
3.6 पेशेवर सेवाएं	107722	106349	111576	113204	5.1	6.4
3.7 व्यापार	632495	600840	672389	687305	8.7	14.4
3.7.1 थोक व्यापार	320677	297113	333226	336982	5.1	13.4
3.7.2 खुदरा व्यापार	311818	303727	339163	350322	12.3	15.3
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	289439	288760	275661	288221	-0.4	-0.2
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	958812	895996	1014179	1027183	7.1	14.6
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	218924	191432	232739	235080	7.4	22.8
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	78987	80092	122375	118244	49.7	47.6
3.10 अन्य सेवाएं ³	573552	664286	570309	586058	2.2	-11.8
4. व्यक्तिगत ऋण	2994721	2944789	3180477	3306650	10.4	12.3
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	17327	17055	25744	26587	53.4	55.9
4.2 आवास	1501141	1478790	1552989	1578125	5.1	6.7
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	68955	60741	70009	76579	11.1	26.1
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	5236	4957	5017	5968	14.0	20.4
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	131193	131068	141254	144004	9.8	9.9
4.6 शिक्षा	64063	64554	63057	63130	-1.5	-2.2
4.7 वाहन ऋण	301876	298874	281518	329636	9.2	10.3
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	60835	56596	69521	71408	17.4	26.2
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	844095	832154	971366	1011213	19.8	21.5
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां ⁴	1280970	1263614	1354691	1375748	7.4	8.9
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1190612	1211174	1244132	1312435	10.2	8.4
5.3 मध्यम उद्यम ⁶	222912	207995	275363	298107	33.7	43.3
5.4 आवास	491507	496751	480738	487611	-0.8	-1.8
5.5 शिक्षा ऋण	48262	48610	46303	45643	-5.4	-6.1
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1244	1495	1965	2573	106.9	72.1
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2666	2439	2447	2480	-7.0	1.7
5.8 निर्यात ऋण ⁷	31910	27983	24418	29721	-6.9	6.2
5.9 अन्य	15684	17366	39788	40603	158.9	133.8
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ/एमएफ सहित कमजोर वर्ग	870366	837992	875210	933147	7.2	11.4

टिप्पणी 1: डाटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर-खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डाटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल गैर खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बंधित कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण और पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।